

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31—फरवरी 6, 2015 (माघ 11, 1936)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2015 (MAGHA 11, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union
Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली—110003, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. डीपीपर्स—I2014/99/3/87/2011—श्री एस. पी. एस. दत्ता ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.11.2014 के अपराहन से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स— I2014/100/3/102/2014—श्री हरिकेश ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.11.2014 के अपराहन से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500 052, दिनांक 7 जनवरी 2015

संख्या 15011/19/2014/स्था.—गृह मंत्रालय के पत्र सं. 23011/105/2014—पीटी दिनांक 18.11.2014 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री ए. राजा नाईक, वैज्ञानिक अधिकारी, आंध्रप्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक (वैज्ञानिक एड्स) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड-3, रुपए 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रुपए 6600/- पर दिनांक 01 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से 01 वर्ष या अगले आदेश तक, प्रतिनियुक्ति की सामान्य भातों पर लोकहित के लिए, गृह मंत्रालय के अधिसूचना सं. 18/4/51-स्था.(बी) दिनांक 01.09.1958 के तहत नियुक्त किया जाता है। अधिकारी को उक्त पद के लिए भारत सरकार के नियमों के तहत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का हक होगा।

2. अधिकारी को यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पैतृक वेतनमान या अकादमी में प्रतिनियुक्ति के पद पर वेतनमान यथा पे-बैंड-3 रुपए 15,600-39,100/- + ग्रेड पे-रुपए 6600/- संबद्ध नियमों के अधीन लागू होने वाले अन्य भत्तों के सहित ले सकते हैं। इस विकल्प का सुनिश्चयन नियुक्ति के एक महीने के भीतर कर देना चाहिए और एक बार सुनिश्चित होने पर यह अंतिम एवं बाध्य होगा।

अरुणा एम. बहुगुणा
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

संख्या ओ.दो. 3902/12-कार्मिक (एम0ओज0)—डा0 दीपक सांखला, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) (ईरला सं0 9260) को दिये गये एक माह के नोटिस की समय सीमा दिनांक 10/12/2014 (अपराह्न) को समाप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश के पैरा 4 (1) के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली-1965 के नियम-5, उप-नियम-1 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 10/12/2014(अपराह्न) से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई है। तदनुसार उन्हें उसी तिथि अर्थात् 10/12/2014 (अपराह्न) से केरिपुबल की नफरी से निकाला जाता है।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या ओ.दो. 3891/11-कार्मिक (एम0ओज0)—डा0 सत्येन्द्र कुमार परासर, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) (ईरला सं0-8660) को दिये गये एक माह के नोटिस की समय सीमा दिनांक 09/12/2014 (अपराह्न) को समाप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश के पैरा 4 (1) के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली-1965 के नियम-5, उप-नियम-1 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 09/12/2014 (अपराह्न) से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई है। तदनुसार उन्हें उसी तिथि अर्थात् 09/12/2014 (अपराह्न) से केरिपुबल की नफरी से निकाला जाता है।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

सं. ए-17011/07(एस-151)/2014-प्रशा.-।—इस निदेशालय के श्री सतविंदर जीत सिंह भिंडर, सहायक निदेशक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वेणुकुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
एवम्
कार्यालयाध्यक्ष

सं. ए-17011/05(जी.-71)/2014-प्रशा.।—इस निदेशालय के श्री गणेश चन्द्र पंत, अतिरिक्त सहायक निदेशक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वेणुकुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
एवम्
कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. ए-12012/1/ए.डी./2013-प्रशासन-2—इस निदेशालय के श्री एस. जे. एस. भिंडर, अतिरिक्त सहायक निदेशक को रुपये 15,600—39,100/- ग्रेड पे 5,400/-, पे बैंड-3 में सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 19.11.2014 से पदोन्नत किया जाता है।

वेणुकुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. ई-16013/1/प्रतिनियुक्ति/एकेसिंह/कार्मिक-2/52—राष्ट्रपति, श्री अनन्त कुमार सिंह, भा0पु0से0 (एम0पी01994) को महानिरीक्षक पद में पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2015 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन बैंड-4 रु. 37,400—67,000/- + रु. 10,000/- ग्रेड वेतन में नियुक्त करते हैं।

अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर दिनांक 01/01/2015 (पूर्वाह्न) को महानिरीक्षक (उत्तरी सेक्टर), केऔसुब, साकेत, नई दिल्ली का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. 1/82/2009-प्रशा.-III—राष्ट्रपति, डा. च. चन्द्रमौलि भा.प्र.से. (टीएन : 85) की भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एण्ड सीसीआई) के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को संयुक्त सचिव के पद और वेतन में 08.01.2015 से आगे तीन माह की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

राम गोपाल
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 15 जनवरी 2015

सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेपअ)/17-2(वलेपअ)/भाग-IV/2654—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेपअ)/17-2(वलेपअ)/भाग-IV/2525 दिनांक 31/12/2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1071 दिनांक 31/12/2014 के अनुपालन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—रु. 39,100/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	प्रदीप्त कुमार हजारी	01.01.2015 पूर्वाह्न
02.	प्रमोद कुमार नायक - ।	01.01.2015 पूर्वाह्न

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
03.	जयदेब महान्ति	01.01.2015 पूर्वाह्न
04.	बसन्त कुमार नायक	01.01.2015 पूर्वाह्न
05.	बिबेकानन्द दास	01.01.2015 पूर्वाह्न
06.	कान्हु चरण साहु	01.01.2015 पूर्वाह्न
07.	आनन्द चन्द्र नायक	01.01.2015 पूर्वाह्न
08.	सुश्री नीलम सुरीन	01.01.2015 पूर्वाह्न
09.	प्रशान्त कुमार धल — ।	01.01.2015 पूर्वाह्न
10.	रत्नाकर सामल	01.01.2015 पूर्वाह्न
11.	रंकनाथ मल्लिक	01.01.2015 पूर्वाह्न
12.	बाबाजी चरण प्रधान	01.01.2015 पूर्वाह्न
13.	अक्षय कुमार नायक	01.01.2015 पूर्वाह्न
14.	असित कुमार पात्र	01.01.2015 पूर्वाह्न
15.	पिताम्बर बेहरा	01.01.2015 पूर्वाह्न
16.	श्रीमती सुकान्ति प्रभा दास	01.01.2015 पूर्वाह्न
17.	गोपाल कृष्ण महारथा	01.01.2015 पूर्वाह्न

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 6 जनवरी 2015

सं. सी.-01/707—निम्नलिखित सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों, ग्रुप 'बी' (अराज पत्रित) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप बी (राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-02 में रुपये 9,300—34,800/— + 4,600/— ग्रेड पे में पदोन्नत किया जाता है :—

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री अशोक रतन	08.05.2014 (अपराह्न)
2.	श्री ए० सी० दाश	09.05.2014
3.	श्री शान्ति प्रसाद	12.05.2014 (अपराह्न)
4.	श्री विजय छिब्र	13.05.2014
5.	श्री सी० पी० यादव	09.05.2014
6.	श्री के० के० देब	09.05.2014
7.	श्री गोबिन्द बोराह	03.06.2014
8.	श्री ए० बी० हाहुनर (अनु० जनजाति)	29.05.2014
9.	श्री बी० आर० चौधरी	21.05.2014
10.	श्री पी० दास गुप्ता	08.05.2014

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
11.	श्री आर० डी० चौधरी	29.05.2014
12.	श्री रनजीत कुमार दत्ता	08.05.2014
13.	श्री के० एल० मीणा (अनु० जनजाति)	22.05.2014
14.	श्री के० एन० प्रधान (अनु० जनजाति)	10.06.2014
15.	श्री दिलबाग सिंह (अनु० जाति)	19.05.2014 (अपराहन)
16.	श्री सुखनाथ राम (अनु० जनजाति)	12.05.2014
17.	श्री आर० के० भजिया (अनु० जाति)	13.05.2014
18.	श्री के० एम० पन्त	09.05.2014
19.	श्री के० बी० खत्री	12.05.2014 (अपराहन)
20.	श्री विनोद कुमार नायर	30.06.2014
21.	श्री रवि प्रकाश	09.05.2014
22.	श्री सुनील कुमार शर्मा	20.06.2014
23.	श्री जी० रमेश (अनु० जाति)	12.05.2014
24.	श्री जूला राम (अनु० जनजाति)	06.06.2014
25.	श्री एन० बलिराम (अनु० जनजाति)	30.05.2014
26.	श्री भाग सिंह (अनु० जनजाति)	12.05.2014
27.	श्री एम० पी० चावला	13.05.2014
28.	श्री ज्ञान चन्द (अनु० जाति)	13.05.2014
29.	श्री के० सी० बेबी	09.09.2014
30.	श्री राम सिंह	16.10.2014
31.	श्री अशरफी राई	09.09.2014
32.	श्री अनुपम बैरागी (अनु० जाति)	09.09.2014
33.	श्री जी० विनय कुमार (अनु० जाति)	09.09.2014

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 14 जनवरी 2015

सं. पीडी/11(1)/2014-भर्ती-III/2015/534—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती कविता एस. चोपडे, सहायक, को दिनांक 03.11.2014 (पूर्वाहन) से 02.01.2015 (अपराहन) तक ₹ 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई—400094, दिनांक 12 जनवरी 2015

सं. भापाबो/भर्ती/4(13)/2014—खण्ड 1/204—भारत के राष्ट्रपति भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/ भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तूतीकोरिन/मणुगुरु) में वेतन बैंड 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन 8,700/— में कार्यरत निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड—एफ को वेतन बैंड 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन 8,900/— में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड—जी के पद पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उसी संयंत्र में नियुक्ति करते हैं :—

क्र. स.	नाम	प्रभाग / इकाई	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	देवेन्द्र कुमारसिंह	भापाबो (कें.का.)	01.07.2014
2.	सुंदरवेलपरसुरामन	भापाबो (कें.का.)	01.07.2014
3.	धर्मसिंह	कोटा	01.07.2014
4.	सोमवीरसिंह	कोटा	01.07.2014
5.	मरियमैकेलराजअई.	बड़ौदा	07.07.2014
6.	धर्म नारायणसिंह	बड़ौदा	01.07.2014
7.	उत्तिरापलि षण्मुगानंदम	तूतीकोरिन	01.07.2014
8.	वड्लाभास्काराचारी	मणुगुरु	01.07.2014
9.	बूतुकूरिकोटिरेड्डी	मणुगुरु	01.07.2014
10.	सलपालाराजय्या	मणुगुरु	01.07.2014
11.	उज्जलकुमारबिस्वास	मणुगुरु	01.07.2014
12.	जी.एस.एस.वी.जे. शर्मा	मणुगुरु	01.07.2014
13.	डॉ. कोमबत्तुला राम प्रसाद राव	मणुगुरु	01.07.2014
14.	जी. श्रीनीवासराव	मणुगुरु	01.07.2014

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वी. एम. थॉमस
मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. भापाबो/भर्ती/4(13)/2014—खण्ड 1/205—भारत के राष्ट्रपति भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/ भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तूतीकोरिन/मणुगुरु) में वेतन बैंड 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन 7,600/— में कार्यरत निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड—ई को वेतन बैंड 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन 8,700/— में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड—एफ के पद पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उसी संयंत्र में नियुक्ति करते हैं :—

क्र. स.	नाम	प्रभाग / इकाई	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री नीरज कुमार	भापाबो (कें.का.)	01.07.2014
2.	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	कोटा	01.07.2014
3.	श्री देवेन्द्र कुमार कलकल	कोटा	01.07.2014
4.	श्री गोपाल सिंह	कोटा	01.07.2014

क्र. स.	नाम	प्रभाग / इकाई	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
5.	श्री अनिल कुमार जैन	कोटा	01.07.2014
6.	श्री रत्नेश गुप्ता	कोटा	01.07.2014
7.	श्री चन्द्र कुमार यादव	कोटा	01.07.2014
8.	श्री महेश कुमार राहुल	कोटा	01.07.2014
9.	श्री अजय प्रताप लाल	बड़ौदा	01.07.2014
10.	श्री सुब्बैया रामकृष्णन	तूतीकोरिन	01.07.2014
11.	श्री दुरैसामी सेकर	तूतीकोरिन	01.07.2014
12.	श्री अवदानं राम मोहन	मणुगुरु	01.07.2014
13.	श्री कल्लि तिरुमल राव	मणुगुरु	01.07.2014
14.	श्री चींचोकी जगनाथ	मणुगुरु	01.07.2014
15.	श्री द्वादशी श्रीनिवास राव	मणुगुरु	01.07.2014
16.	श्रीवाई. श्रीमन्नारायाण	मणुगुरु	01.07.2014

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वी. एम. थॉमस
मुख्य प्रशासन अधिकारी

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली—110019, दिनांक 15 जनवरी 2015

सं. करं दिल्ली/560(5)एफटीई—2011/10747—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
1	U72900DL2012PTC237368	कौरविडस टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	U65923DL2007PTC165604	एम एल जे फाइनैसियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U74140DL1996PTC084081	आईरिस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U72200DL2013PTC252212	शिवदया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	U72900DL2011PTC215888	कमेडु इंफोटेच प्राइवेट लिमिटेड
6	U65910DL2007PTC167690	डी जी एस फाइनैसियल प्राइवेट लिमिटेड
7	U45400DL2007PTC168176	डी जी एस प्रॉपर्टीज सलूशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
8	U80300DL2007PTC169870	अचीवर्स एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	U74999DL1998PLC093943	एड यू टेक इन्फार्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड
10	U51109DL2008PTC182925	नेक्स्ट ट्रैक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	U52590DL2009PTC186751	ग्लिटर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	U72900DL2008PTC186087	टी जे सॉफ्ट ड्रीमवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U74140DL2005PTC133619	मार्ग एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
14	U74140DL2011PTC218085	एरोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U21012HR1996PTC033315	रूपा प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74999DL2012PTC242861	वर्सटाइल सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U35100DL2008PLC176855	दहेज शिपयार्ड लिमिटेड
18	U74899DL1994PTC059410	मीनार पोल्यमर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U45200DL2007PTC159358	एस एम एन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U74999DL2010PTC202743	ऐ के सी मैनुपावर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U74920DL2012PTC232095	ऐ के सी सेफ हेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U74140HR2010FTC041684	आई बी वॉट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U35100DL2008PLC176855	दहेज शिपयार्ड लिमिटेड
24	U34300DL1997PTC086067	बेस्ट गार्स्कट्स एंड जोइंटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
25	U74140DL2010PTC211102	सेकबीटस सिक्वोर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U93090DL2006PTC151547	सम्प्रति इंफोटेच प्राइवेट लिमिटेड
27	U15400DL2013PTC251382	रेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U92410DL2008PTC185981	एबीएस स्पोर्ट्स एंड सुरफसेस प्राइवेट लिमिटेड
29	U74999DL2004PTC124691	द्वारिका सिक्वोरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
30	U27100DL2008PLC182566	तेहरी टीसकोण लिमिटेड
31	U51909DL2012PTC242655	एस वि आर एन मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U15122DL2013FTC257436	हेल्दी ब्लेंड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	U80903DL2010PTC206289	एचीवर स्कॉलरशिप्स फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट अकैडमी प्राइवेट लिमिटेड
34	U70109HR2011PTC042975	रानजी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U32204DL2007PTC165941	लाइव मोबाइल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
36	U80301HR2009PTC038747	करियर एड यू टेक लांच पण्ड प्राइवेट लिमिटेड
37	U74140DL2008PLC177281	हरियाली इंडिया लिमिटेड
38	U74899DL1995PTC067874	टाइटन लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U63040DL2008PTC178605	होम टू होम हॉस्पिटैलिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
40	U74899DL1992PTC049728	मानस लैहदर्स प्राइवेट लिमिटेड लेहडर्स
41	U18101DL2003PTC118496	ई एन एम कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
42	U17297HR1995PTC032921	पूजा पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U36900HR2011PTC044699	हेलो पैट इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
44	U24110DL2013PTC257356	त्रिभंगा केमिकल्स एंड फर्टिलिज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U72900DL2008PTC186142	पी आई इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
46	U15400DL2013PTC251382	रेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U31501DL2007PTC169820	एडवांस्ड एलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड
48	U72900DL2007PTC166112	एच एंड एम इन्फो सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
49	U51909DL2012PTC239057	लेउचटफेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
50	U74999HR2011PTC041935	जे एस आर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
51	U51109DL2009PTC186279	सौम्या हैंड्री क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U18101DL2009PTC186362	सूर्य उदय हैंड्री क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U18101DL2009PTC186378	सुशांत क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U18101DL2009PTC186360	यूनिक शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड
55	U31909DL2005PTC136067	जगमाता इलेक्ट्रिकल्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
56	U74140DL2010PTC206002	अनक गंगा एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
57	U51311DL2005PTC137240	डिलाइट गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U72300DL2005PTC135338	पी एन पी इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
59	U64202DL2002PTC115829	एच ऐ एस सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
60	U72300DL2009PTC194426	जी 2 रोलिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
61	U15412HR2007PTC037215	सुशांति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U15205HR2012PTC047748	ओरिएंट टेस्टी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U64120DL1999PTC102010	चिराग टेलेलिनक्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U51909DL2009PTC188403	पी एस मेडी कैम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
65	U67120DL2011PTC219147	गेनफिन सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
66	U61200DL2007PTC164790	फ्लीट कंटेनर लाइन्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड
67	U55101DL2007PTC165076	जे एम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U74899DL2006PTC144607	रिमार्कबल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
69	U74140DL2008PTC184691	आर वी उपर्कित इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
70	U74140DL2011PTC215767	मिनेर्वा कैपिटल एड्विसेर्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U51410DL1998PTC093754	नमिता लुब्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
72	U55101DL2011PTC222551	नवासी होटल्स रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस (हिमालयाज) प्राइवेट लिमिटेड
73	U52322DL2008PTC173803	बसवल गारमैट्स लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
74	U40106DL2013PTC254539	केविन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
75	U74999DL2009PTC188749	यूनाइटेड लेन्स ओ एंड एम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
76	U51909DL2004PTC128586	ग्रीन क्राफ्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U74990DL2010PTC211315	एक्सक्लूसिटी बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U63040DL2012PTC236822	टीएनडी ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड
79	U31401DL2011PTC228292	एमिअरी लिटस प्राइवेट लिमिटेड
80	U72900DL2014PTC262925	माया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
81	U70109DL2013PTC255711	राजेश भाटिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
82	U45400DL2007PTC162211	रादिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
83	U70200DL2010PTC198851	जनक इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
84	U24232DL2009PTC186586	मोती राम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U70200DL2010PTC198953	श्रेया बील्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
86	U45400DL2008PTC185057	फ्लेयर बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड
87	U24232DL2009PTC186674	श्रेया ड्रग्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
88	U74999DL2009PTC191255	ओशन इयोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
89	U45400DL2010PTC211799	शिव डिज़ाइन एंड फैकेड प्राइवेट लिमिटेड
90	U74899DL1994PTC063310	आर के वायए सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
91	U74899DL1995PTC072454	उप-टू-डेट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U74899DL1994PTC063311	वाये पी वाये होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U72900DL2004PTC124995	वास आई टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U74899DL1985PTC022426	ई आई सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
95	U50300DL2004PTC130823	शिव कुबेर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U63030DL2012PTC237951	सदाशिव लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U72200DL2005PTC133960	कोर्गेट साइबर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
98	U72900DL2004PTC124998	सी गला आईटी सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
99	U65921DL1996PTC081786	फोकस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
100	U15400HR2013PTC048471	अनुपम वैजिस प्राइवेट लिमिटेड
101	U72200DL2001PTC112208	ट्रिडेंट बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U67190DL2011PTC227724	सामरा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
103	U67190DL2011PTC225392	एस के पी फिन केप प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
104	U51909DL2008PTC177177	मांडी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
105	U55101DL1999PTC102778	ग्लैमर रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

एलएलपी नियम 2009 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

नई दिल्ली—110019, दिनांक 19 जनवरी 2015

सं. करं (दिल्ली)/नियम 37(3)/10813—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उपनियम (3) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एलएलपी के नाम इनके प्रतिकूल काल दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दी जायेगी और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जायेगी :—

क्रमांक संख्या	LLPIN	एल एल पी नाम
1.	AAA-5168	लेप्सथोर्न कंसल्टेंट्स एल एल पी
2.	AAA-0769	फोर्टी फोर जी रिकार्ड्स एल एल पी
3.	AAA-1742	बीना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस एल एल पी
4.	AAA-7097	के आर टी टेक्नोलॉजीस एल एल पी
5.	AAA-3103	ऑस्पीस सोलवेरे एल एल पी
6.	AAA-0201	इंडियाकेयर्स एडवाइजर्स एल एल पी
7.	AAA-0127	सवान्नह गार्डन एल एल पी
8.	AAA-4804	गोथीन इंडिया ट्रेडिंग कंपनी एल एल पी
9.	AAA-0120	रेलिश इन्नोवेशंस एल एल पी
10.	AAA-4523	सीताक पावर इफ्रा जेम 100 एल एल पी
11.	AAA-1239	ब्लू एवेरेस्ट फाइनेंशल एडवाइजर्स एल एल पी
12.	AAA-0210	अर्थ फाउंडेशन ग्लोबल एल एल पी
13.	AAA-3429	सलूशनबाइट्स टेक्नोलॉजीस एल एल पी
14.	AAA-1629	स्कैन फाइनेंशल कंसल्टेंट्स एल एल पी
15.	AAA-5291	लेजरस्फीयर कंसल्टिंग सर्विसेज एल एल पी
16.	AAA-3652	ब्राउन स्टोन टेक्नोलॉजीस एल एल पी
17.	AAA-1666	डेस्ट्रेज़ा एडवाइजर्स एल एल पी
18.	AAA-3520	प्रवीण कम्युनिकेशंस एल एल पी
19.	AAA-0494	शिवमजीत टेक एल एल पी
20.	AAB-0449	ओडिश गारमेंट्स एल एल पी
21.	AAA-3682	लेमन स्क्वायर एल एल पी
22.	AAA-3431	सी वी एफ कम्युनिकेशंस एल एल पी

क्रमांक संख्या	LLPIN	एल एल पी नाम
23.	AAA-2386	फीनिक्स एडवाइज़र्स एल एल पी
24.	AAA-1655	ग्रीन्स एंड बीन्स एल एल पी
25.	AAA-8240	आई पी बी ई कैपिटल एडवाइज़र्स एल एल पी
26.	AAA-6654	अरिष्टात माइनिंग एल एल पी
27.	AAA-6666	ओरानोस माइनिंग एल एल पी
28.	AAA-6656	विलस्टोन माइनिंग एल एल पी
29.	AAA-3435	एम वी एफ कम्युनिकेशंस
30.	AAA-3504	सेठना एस एम एस सोलूशन्स
31.	AAA-3501	सुधीर एस एम एस सोलूशन्स
32.	AAA-5523	बंडलबाज़ी ऑनलाइन रिटेल सप्लायर्स
33.	AAA-8855	अगस्त वर्ड्स एडुवाइज़र्स
34.	AAA-3450	आई पी डिज़ाइन स्टूडियो
35.	AAA-3955	टेक्स्ट कम्युनिकेशंस
36.	AAA-9298	ब्लॉसम माइनिंग
37.	AAA-9178	निओनेट माइनिंग
38.	AAA-9175	एकॉर्ड माइनिंग
39.	AAA-4574	मोबिकनेक्सओन सर्विसेज
40.	AAB-0814	बोनस एवेंटुस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स
41.	AAA-1847	नेवीसीओन आइडियाज
42.	AAA-3505	चन्द्रमा एस एम एस सोलूशन्स
43.	AAA-1240	ब्लैकस्वान एडवाइज़री
44.	AAA-4680	एस्सेन वेंचर्स
45.	AAA-1380	राम किशन बील्डटेक
46.	AAA-1374	वी एन जी इंफ्रास्ट्रक्चर
47.	AAA-0251	बाइनरी एजुकेशन इंडिया
48.	AAA-3430	टी वी एफ कम्युनिकेशंस
49.	AAA-4258	मेटल विंग कम्युनिकेशंस
50.	AAA-3436	ओशियन वेव कम्युनिकेशंस
51.	AAA-3317	आई पी कैपिटल एडवाइज़र्स
52.	AAA-0189	स्मैश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज
53.	AAB-6074	एक्ससीडो आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स
54.	AAA-3515	मोबकॉम सर्विसेज एल एल पी
55.	AAA-3516	राजनंदनी एस एम एस कम्युनिकेशंस एल एल पी

क्रमांक संख्या	LLPIN	एल एल पी नाम
56.	AAB-4905	तरुब्रिकस सर्विसेज एल एल पी
57.	AAA-8653	ब्रोस्टर कंसल्टेंसी एल एल पी
58.	AAA-2148	निओलेज प्लानर्स एल एल पी
59.	AAA-9097	अमीलालग बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एल एल पी

त्याइला
सहायक कम्पनी पंजीयक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. जक्कुजी फार्मा एण्ड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड U02582DD1988PTC002582 के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 14 जनवरी 2015

सं. 560 (3) एम.सी.ए/कं. रजि. गोवा/धारा 560/2015/00050/2033—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए जाने पर मै. जक्कुजी फार्मा एण्ड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस कार्यालय द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर से इस तारीख के तीन महीनों के उपरान्त काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित दो कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. नोटिस 560(5)एफटीई-2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित दो कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	U63012KL2009PTC024305	मासट्रान्स शिपिंग & ट्रान्सपोर्ट इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
2	U52100KL2007PTC020832	फाशनेट इण्डिया ट्रेडर्स प्रैवट लिमिटेड

ए. सेहर पोन्नराज
कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलुरु, दिनांक 13 जनवरी 2015

सं. आरओसी/560(5)एफटीई—नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की 560, कम्पनियां नंबर 1-60 रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
1	U70102KA1993PTC013975	डंडेली गोल्ड प्लांटेशंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U72200KA2007PTC044204	एमटूटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
3	U15424KA2011PLC060309	वृद्धि शुगर एंड पावर लिमिटेड
4	U72900KA2011PTC060965	हूटस कंप्यूटर अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
5	U85110KA1996PTC020149	श्री शेषाद्रि लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6	U80301KA2013PTC070130	क्वालेद ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200KA2010PTC053156	टेगल इंटरनेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U67120KA2004PTC034667	स्पाइस कैपिटल फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
9	U15490KA2013FTC070594	स्काॅउटेन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	U26913KA2008PTC045837	सरडीने सिरेमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	U73200KA2006PTC038634	प्रोसिंथ रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U74999KA2011PTC060595	युबित इकोमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U80903KA2014PTC074078	वोर्किप्रोग्रेस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U74999KA2011PTC056824	अर्टेमुस आर्चिटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U32109KA1988PTC009484	एलको नत्तफ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16	U55109KA2008SGC046062	अपना सपना रिसॉर्ट्स एंड प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	U85100KA2008PTC046497	लाइफमोजो हेल्थ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U85110KA1989PLC010604	मैडी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड
19	U74210KA2003PTC031950	प्रगति जीओ-टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U72900KA2011PTC060559	एक्सकेलान इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
21	U01403KA2011PTC058915	लैरो वैली फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U45201KA2006PTC040761	स्थापति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U80300KA2009PTC050820	ऐरऐ नॉलेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U74120KA2009PTC051961	औडेसियस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U74210KA2011PTC056861	आर एम टी सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
26	U85195KA2008PTC046387	लाइफटेस्ट डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
27	U72200KA2011PTC056578	करदिश इंफोटेच प्राइवेट लिमिटेड
28	U74992KA2008PTC048661	मैत्री फोरेक्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
29	U74120KA2008PTC047171	सुपीरियर एकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	U62200KA2009PTC051453	अलायन्स स्टार एयरलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U70100KA2011PTC059698	श्री बालाजी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
32	U15400KA2011PTC060410	के वी ब्रदर्स ट्रेडिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
33	U45201KA2010PTC055180	द्युतिम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U70100KA2012PTC063634	बोनवेंदूरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
35	U74900KA2011PTC060818	वेलवेट लीफ वेकेशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U51410KA2006PTC040985	रेफ्रिजरेशन एंड ऑक्सीजन एशिया प्राइवेट लिमिटेड
37	U01407KA2013PTC070146	नाइन पेटल्स लैंडस्केप्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U41000KA2011PTC060908	साई एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	U51101KA2010PTC054581	विनेला एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U74900KA2011PTC058628	बेसिक टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड
41	U70109KA2011PLC060546	यू बी रियल्टी लिमिटेड
42	U74130KA2009PTC050900	एंजेल नेटवर्क एंड सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	U80101KA2008PTC046813	बैंगलुरु बिज़नेस मैनेजमेंट स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड
44	U72200KA2005PTC036405	एलुस नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	U72900KA2004FTC035050	सिफोरा इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
46	U92412KA2011PTC061049	स्पोर्टीतुड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
47	U70102KA2010PTC053579	सुमा तेजस्वी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U63040KA2007PTC042832	वेकेशनर हॉलीडेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
49	U15422KA2007PTC041685	गोल्डन जग्गेरी प्राइवेट लिमिटेड
50	U22222KA2012PTC065532	फाल्कोहॉक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
51	U85100KA2010PTC055506	मैगनोलिया हेल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड
52	U72200KA2014PTC073494	सीजंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
53	U13100KA2012PTC064184	सिद्धांत रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
54	U72200KA2006PTC041257	नेक्स्ट पॉइंट (बैंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड
55	U70102KA2007PTC043759	श्री नानक बिल्डवेल् (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
56	U24246KA2006PTC038956	प्रेमुरा फ्रैगरेन्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U18101KA2008PTC048354	जुआला इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U45201KA2010PTC056309	एवेरकास्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
59	U63013KA2010PTC054475	इंटरचेन लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U74140KA2005PTC037955	बेरातुंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

सत्यजित रौल
अस्ट. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी
कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 15th December 2014

No. DP/Pers-12014/99/3/87/2011—Shri S. P. S. Dutta has relinquished charge of the post of Supdt. of Police/Assistant Director, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.11.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir (Pers.)

No. DP/Pers-I2014/100/3/102/2014—Shri Harikesh has relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.11.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500052, the 7th January 2015

No. 15011/19/2014-Estt.—In pursuance of approval of Ministry of Home Affairs conveyed vide their letter No.23011/105/2014-PT dated 18.11.2014, Shri A. Raja Naik, Scientific Officer, A.P. Forensic Science Laboratory, Hyderabad is appointed as Assistant Director (Scientific Aids) in SVP National Police Academy, Hyderabad, in the pay scale of PB-3, Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- on deputation basis for a period of one year with effect from 01st January, 2015 (FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation, in public interest, as per the provisions contained in MHA Notification No.18/4/51-Estt(B) dated 01.09.1958. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

2. Officer will have the option either to draw the pay in his parent scale of pay or the pay in the scale of pay of the deputation post in the Academy i.e. PB-3 Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- plus allowances as admissible under the relevant GOI rules. The option has to be exercised by the officer, within one month of his joining the post and option once exercised shall be final and binding.

ARUNA BAHUGUNA
Director

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 30th December 2014

No. O.II.3902/12-Pers-MOs—Consequent on expiry of one month's notice served upon Dr Deepak Shankhla, Medical Officer (Assistant Commandant) (IRLA 9260) 197 Bn, CRPF on 10/12/2014(AN), his services stands terminated with effect from 10/12/2014(AN) under clause 4 (1) of offer of appointment read with sub rule (1) of Rule-5 of the CCS (Temporary Service) Rules 1965. Accordingly, name of above doctor stands struck off from the rolls of CRPF from the same date.

M C PANWAR
DIGP(Pers)

No. O.II.3891/11-Pers-MOs—Consequent on expiry of one month's notice served upon Dr Satyendra Kumar Parashar, Medical Officer (Assistant Commandant) (IRLA 8660) 214 Bn, CRPF on 09/12/2014(AN), his services stands terminated with effect from 09/12/2014(AN) under clause 4 (1) of offer of appointment read with sub rule(1) of Rule-5 of the CCS (Temporary Service) Rules 1965. Accordingly, name of above doctor stands struck off from the rolls of CRPF from the same date.

M C PANWAR
DIGP(Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 19th December 2014

No. A-17011/07 (S-151)/2014-Admn.I—Shri Satvinder Jit Singh Bhinder, Assistant Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30-11-2014.

VENUKUMAR K.M.
Jt. Dir. (Admn.) &
Head of the Office

No. A-17011/05 (G-71)/2014-Admn.I—Shri Ganesh Chandra Pant, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30-11-2014.

VENUKUMAR K.M.
Jt. Dir. (Admn.) &
Head of the Office

The 8 January 2015

No. A-12012/1/AD/2013-Admn.II—Shri S. J. S. Bhinder, Extra Assistant Director of this Directorate is promoted to the grade of Assistant Director in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 5,400/- Pay Band-3 on regular basis with effect from the forenoon of 19.11.2014.

VENUKUMAR K. M.
Jt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 7th January 2015

No. E-16013/1/Dep/AKS/Pers-II/52—The President is pleased to appoint Shri Anant Kumar Singh, IPS (MP: 1994) as Inspector General, Central Industrial Security Force, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs.10,000/- on promotion. The officer has assumed the charge of Inspector General/NS HQrs, Saket, New Delhi with effect from the forenoon of 01.01.2015.

D. SHYAMALA
Asstt. Inspector General (Pers)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 8th January 2015

No. 1/82/2009-Ad.III—The President is pleased to extend the central deputation of Dr. C. Chandramouli, IAS (TN:85) as Registrar General and Census Commissioner, India (RG & CCI) in the rank and pay of Joint Secretary for a period of three months beyond 08.01.2015, or until further orders, whichever is earlier.

RAM GOPAL
Under Secy

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 15th January 2015

No. Admn (G&SSA)/17-2(Sr.AO)/Vol.IV/ 2654—In pursuance of OOC No. 1071 dated 31.12.2014 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (Sr.AO)/Vol.IV /2525 dated 31.12.2014 the following Audit Officers on promotion

have assumed the charge as Senior Audit Officer (Civil) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates as indicated against them.

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Sr. Audit Officer
01.	Pradeepta Kumar Hazary	01.01.2015 FN
02.	Pramod Kumar Nayak – I	01.01.2015 FN
03.	Jayadeb Mohanty	01.01.2015 FN
04.	Basanta Kumar Nayak	01.01.2015 FN
05.	Bibekananda Das	01.01.2015 FN
06.	Kanhu Charan Sahu	01.01.2015 FN
07.	Ananda Chandra Nayak	01.01.2015 FN
08.	Ms. Neelam Surin	01.01.2015 FN
09.	Prasanta Kumar Dhal – I	01.01.2015 FN
10.	Ratnakar Samal	01.01.2015 FN
11.	Rankanath Mallik	01.01.2015 FN
12.	Babaji Charan Pradhan	01.01.2015 FN
13.	Akshay Kumar Nayak	01.01.2015 FN
14.	Asit Kumar Patra	01.01.2015 FN
15.	Pitamber Behera	01.01.2015 FN
16.	Ms. Sukanti Prava Das	01.01.2015 FN
17.	Gopal Krishna Maharatha	01.01.2015 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/ Admn.

SURVEY OF INDIA
(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehra Dun-248001, the 6th January 2015

No. C-01 /707—The undermentioned Surveyors/Survey Assistants Group 'B' (Non Gazetted) are hereby promoted as Officer Surveyor Group 'B' (Gazetted) post in Survey of India on regular basis in PB-02 of Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs.4,600/- with effect from the date(s) as shown against their names:-

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Ashok Rattan	08-05-2014 (AN)
2.	Shri A.C. Dash	09-05-2014
3.	Shri Shanti Prasad	12-05-2014 (AN)
4.	Shri Vijay Chhibber	13-05-2014
5.	Shri C P Yadav	09-05-2014
6.	Shri K K Deb	09-05-2014
7.	Shri Gobinda Borah	03-06-2014
8.	Shri A B Hauhnar (ST)	29-05-2014
9.	Shri B R Choudhury	21-05-2014
10.	Shri P Das Gupta	08-05-2014

Sl. No.	Name	Date of Promotion
11.	Shri R D Choudhury	29-05-2014
12.	Shri Ranjit Kumar Datta	08-05-2014
13.	Shri K L Meena (ST)	22-05-2014
14.	Shri K N Pardhan (ST)	10-06-2014
15.	Shri Dilbag Singh (SC)	19-05-2014(AN)
16.	Shri Sukhnath Ram (ST)	12-05-2014
17.	Shri R K Bajhaiya (SC)	13-05-2014
18.	Shri K M Pant	09-05-2014
19.	Shri K B Khattri	12-05-2014(AN)
20.	Shri Vinod Kumar Nair	30-06-2014
21.	Shri Ravi Prakash (OBC)	09-05-2014
22.	Shri Suneel Kumar Sharma	20-06-2014
23.	Shri G. Ramesh (SC)	12-05-2014
24.	Shri Jula Ram (ST)	06-06-2014
25.	Shri N Bali Ram (ST)	30-05-2014
26.	Shri Bhag Singh (ST)	12-05-2014
27.	Shri M P Chawla	13-05-2014
28.	Shri Gyan Chand (SC)	13-05-2014
29.	Shri K C Baby	09-09-2014
30.	Shri Ram Singh	16-10-2014
31.	Shri Asharfi Rai	09-09-2014
32.	Shri Anupam Bairagi (SC)	09-09-2014
33.	Shri G Vinay Kumar (SC)	09-09-2014

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 14th January 2015

No. PD/11(1)/2014-R-III/2015/534—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Kavita S. Chopade, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 03.11.2014(FN) to 02.01.2015(AN).

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400094, the 12th January 2015

No. HWB/R/4(13)/2014/204—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- of Heavy Water Board (Central Office) / Heavy Water Plant (Kota/Tuticorin/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the pay band with Grade Pay of

Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same plant until further order :-

SR NO	NAME (S/Shri)	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINT- MENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	DEVENDRA KUMAR SINGH	HWB(C.O.)	01.07.2014
2.	SUNDARAVEL PARASURAMAN	HWB(C.O.)	01.07.2014
3.	DHARAM SINGH	KOTA	01.07.2014
4.	SOM VIR SINGH	KOTA	01.07.2014
5.	MARIA MICHAEL RAJ I.	BARODA	07.07.2014
6.	DHARMA NARAIN SINGH	BARODA	01.07.2014
7.	UTHIRAPATHY SHANMUGANANDAM	TUTICORIN	01.07.2014
8.	VADLA BHASKARA CHARY	MANUGURU	01.07.2014
9.	BUTUKURI KOTI REDDY	MANUGURU	01.07.2014
10.	SALAPALA RAJAIAH	MANUGURU	01.07.2014
11.	UJJAL KUMAR BISWAS	MANUGURU	01.07.2014
12.	G.S.S.V.J. SARMA	MANUGURU	01.07.2014
13.	DR. KOMBATHULA RAM PRASAD RAO	MANUGURU	01.07.2014
14.	G.SRINIVAS RAO	MANUGURU	01.07.2014

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

V.M. THOMAS
Chief Administrative Officer

No. HWB//R/4(14)/2014/205—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- of Heavy Water Board (Central Office) / Heavy Water Plant (Kota/Tuticorin/Manuguru) as Scientific Officer/ Engineer Grade 'F' in the pay band with Grade Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same plant until further order :-

Sr. No	NAME S/Shri	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	NIRAJ KUMAR	HWB(C.O.)	01.07.2014
2.	NARENDRA KUMAR JAIN	KOTA	01.07.2014
3.	DEVENDRA KUMAR KALKAL	KOTA	01.07.2014
4.	GOPAL SINGH	KOTA	01.07.2014
5.	ANIL KUMAR JAIN	KOTA	01.07.2014
6.	RATNESH GUPTA	KOTA	01.07.2014
7.	CHANDRA KUMAR YADAV	KOTA	01.07.2014
8.	MAHESH KUMAR RAHUL	KOTA	01.07.2014
9.	AJAY PRATAP LAL	BARODA	01.07.2014

Sr. No	NAME S/Shri	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
10.	SUBBIAH RAMAKRISHNAN	TUTICORIN	01.07.2014
11.	DURASAMY SEKAR	TUTRICORN	01.07.2014
12.	AVADHANAM RAMA MOHAN	MANUGURU	01.07.2014
13.	KALLI TIRUMALARAO	MANUGURU	01.07.2014
14.	CHINCHOLY JAGANNATH	MANUGURU	01.07.2014
15.	DWADASI SRINAVASA RAO	MANUGURU	01.07.2014
16.	Y. SREEMANNARAYANA	MANUGURU	01.07.2014

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

V.M. THOMAS
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act 1956 and of following companies

New Delhi-110019, the 15th January 2015

No. RoC Delhi/560 (5)/FTE-2011/10747—Notice is hereby given under subsection (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved.

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U72900DL2012PTC237368	KORVIDS TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U65923DL2007PTC165604	MLJ FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3	U74140DL1996PTC084081	IRIS PROJECTS PRIVATE LIMITED
4	U72200DL2013PTC252212	SHIVADYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	U72900DL2011PTC215888	COMEDU INFOTECH PRIVATE LIMITED
6	U65910DL2007PTC167690	DGS FINANCIAL PRIVATE LIMITED
7	U45400DL2007PTC168176	DGS PROPERTIES SOLUTION PRIVATE LIMITED
8	U80300DL2007PTC169870	ACHIEVERS EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
9	U74999DL1998PLC093943	EDUTECH INFORMATICS INDIA LIMITED
10	U51109DL2008PTC182925	NEXT TRACK MARKETING PRIVATE LIMITED
11	U52590DL2009PTC186751	GLITTER MARKETING PRIVATE LIMITED
12	U72900DL2008PTC186087	TJ SOFT DREAMWORKS PRIVATE LIMITED
13	U74140DL2005PTC133619	MARG ADVISORY PRIVATE LIMITED
14	U74140DL2011PTC218085	EROS EXPORTS PRIVATE LIMITED
15	U21012HR1996PTC033315	RUPA PRINTERS PRIVATE LIMITED
16	U74999DL2012PTC242861	VERSATILE SOURCING PRIVATE LIMITED
17	U35100DL2008PLC176855	DAHEJ SHIPYARD LIMITED
18	U74899DL1994PTC059410	MINAR POLYMERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
19	U45200DL2007PTC159358	SMN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
20	U74999DL2010PTC202743	AKC MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	U74920DL2012PTC232095	AKC SAFE HANDS PRIVATE LIMITED
22	U74140HR2010FTC041684	IB VOGT INDIA PRIVATE LIMITED
23	U35100DL2008PLC176855	DAHEJ SHIPYARD LIMITED
24	U34300DL1997PTC086067	BEST GASKETS AND JOINTING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
25	U74140DL2010PTC211102	SECBYTES SECURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	U93090DL2006PTC151547	SUMPRATI INFOTECH PRIVATE LIMITED
27	U15400DL2013PTC251382	REST FOODS PRIVATE LIMITED
28	U92410DL2008PTC185981	ABS SPORTS & SURFACES PRIVATE LIMITED
29	U74999DL2004PTC124691	DWARIKA SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
30	U27100DL2008PLC182566	TEHRI TISCON LIMITED
31	U51909DL2012PTC242655	SVRN MARKETS PRIVATE LIMITED
32	U15122DL2013FTC257436	HEALTHY BLENDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	U80903DL2010PTC206289	ACHIEVER SCHOLARSHIPS FOR BRILLIANT STUDENT ACADEMY PRIVATE LIMITED
34	U70109HR2011PTC042975	RANJI ESTATES PRIVATE LIMITED
35	U32204DL2007PTC165941	LIVEMOBILE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
36	U80301HR2009PTC038747	CAREER EDUTECH LAUNCH PAD PRIVATE LIMITED
37	U74140DL2008PLC177281	HARIYALI INDIA LIMITED
38	U74899DL1995PTC067874	TITAN LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
39	U63040DL2008PTC178605	HOME TO HOME HOSPITALITY (INDIA) PRIVATE LIMITED
40	U74899DL1992PTC049728	MANAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
41	U18101DL2003PTC118496	ENM COLLECTIONS PRIVATE LIMITED
42	U17297HR1995PTC032921	POOJA POLYTEX PRIVATE LIMITED
43	U36900HR2011PTC044699	HELLO PET INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED
44	U24110DL2013PTC257356	TRIBHANGA CHEMICALS AND FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
45	U72900DL2008PTC186142	PI INFOCOM PRIVATE LIMITED
46	U15400DL2013PTC251382	REST FOODS PRIVATE LIMITED
47	U31501DL2007PTC169820	ADVANCED ELECTROMACH PRIVATE LIMITED
48	U72900DL2007PTC166112	H & M INFOSOLUTION PRIVATE LIMITED
49	U51909DL2012PTC239057	LEUCHTFEUER TRADING PRIVATE LIMITED
50	U74999HR2011PTC041935	JSR MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
51	U51109DL2009PTC186279	SAUMYA HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
52	U18101DL2009PTC186362	SURYA UDAY HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
53	U18101DL2009PTC186378	SUSHANT CREATIONS PRIVATE LIMITED
54	U18101DL2009PTC186360	UNIQUE SHILP KALA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
55	U31909DL2005PTC136067	JAGMATA ELECTRICALS EXIM PRIVATE LIMITED
56	U74140DL2010PTC206002	ANAK GANGA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
57	U51311DL2005PTC137240	DELIGHT GARMENTS PRIVATE LIMITED
58	U72300DL2005PTC135338	PNP INFOCOM PRIVATE LIMITED
59	U64202DL2002PTC115829	HAS SOLUTION PRIVATE LIMITED
60	U72300DL2009PTC194426	G2 RORLIG SOFTWARE PRIVATE LIMITED
61	U15412HR2007PTC037215	SUSHANTI FOODS PRIVATE LIMITED
62	U15205HR2012PTC047748	ORIENT TASTY FOODS PRIVATE LIMITED
63	U64120DL1999PTC102010	CHIRAG TELELINKS PRIVATE LIMITED
64	U51909DL2009PTC188403	P S MEDI CHEM PHARMA PRIVATE LIMITED
65	U67120DL2011PTC219147	GENFIN SOFT PRIVATE LIMITED
66	U61200DL2007PTC164790	FLEET CONTAINER LINES (DELHI) PRIVATE LIMITED
67	U55101DL2007PTC165076	J. M. HOTELS PRIVATE LIMITED
68	U74899DL2006PTC144607	REMARKABLE RESORTS PRIVATE LIMITED
69	U74140DL2008PTC184691	RV UPARKIT INDIA PRIVATE LIMITED
70	U74140DL2011PTC215767	MINERVA CAPITAL ADVISERS PRIVATE LIMITED
71	U51410DL1998PTC093754	NAMITA LUBES PRIVATE LIMITED
72	U55101DL2011PTC222551	NAVASI HOTELS RESORTS AND PALACES (HIMALAYAS) PRIVATE LIMITED
73	U52322DL2008PTC173803	BASWAL GARMENTS LIFE PRIVATE LIMITED
74	U40106DL2013PTC254539	KEVIN SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
75	U74999DL2009PTC188749	UNITED LANES O&M SERVICES PRIVATE LIMITED
76	U51909DL2004PTC128586	GREEN CRAFT EXPORTS PRIVATE LIMITED
77	U74990DL2010PTC211315	XCLUCITY BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
78	U63040DL2012PTC236822	TEEANDEE TRAVEL PRIVATE LIMITED
79	U31401DL2011PTC228292	EMEARY LITES PRIVATE LIMITED
80	U72900DL2014PTC262925	MAYA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
81	U70109DL2013PTC255711	RAJESH BHATIA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
82	U45400DL2007PTC162211	RADEKA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
83	U70200DL2010PTC198851	JANAK INFRACON PRIVATE LIMITED
84	U24232DL2009PTC186586	MOTI RAM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
85	U70200DL2010PTC198953	SHREYA BUILDMART PRIVATE LIMITED
86	U45400DL2008PTC185057	FLAIR BUILDTECH PRIVATE LIMITED
87	U24232DL2009PTC186674	SHREYA DRUGS COMPANY PRIVATE LIMITED
88	U74999DL2009PTC191255	OCEAN ION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
89	U45400DL2010PTC211799	SHIV DESIGN AND FACADE PRIVATE LIMITED
90	U74899DL1994PTC063310	RKY SECURITIES PRIVATE LIMITED
91	U74899DL1995PTC072454	UP-TO-DATE EXPORTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
92	U74899DL1994PTC063311	YPY HOLDINGS PRIVATE LIMITED
93	U72900DL2004PTC124995	VAS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
94	U74899DL1985PTC022426	E I C SERVICES PRIVATE LIMITED
95	U50300DL2004PTC130823	SHIV KUBER MOTORS PRIVATE LIMITED
96	U63030DL2012PTC237951	SADASHIVA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
97	U72200DL2005PTC133960	COGENT CYBER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
98	U72900DL2004PTC124998	SEGALA IT SERVICE (INDIA) PRIVATE LIMITED
99	U65921DL1996PTC081786	FOCUS TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
100	U15400HR2013PTC048471	ANUPAM VEGGIES PRIVATE LIMITED
101	U72200DL2001PTC112208	TRIDENT BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
102	U67190DL2011PTC227724	SAMARA CONSULTING PRIVATE LIMITED
103	U67190DL2011PTC225392	SKP FINCAP PRIVATE LIMITED
104	U51909DL2008PTC177177	MAANDI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
105	U55101DL1999PTC102778	GLAMOUR RESORTS PRIVATE LIMITED

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of LLP Rules 2009 and of following LLP

New Delhi-110019, the 19th January 2015

No. RoC (Delhi)/Rule 37 (3)/10813—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

Sl. No.	LLPIN	LLP Name
1.	AAA-5168	LEPPSTHORNE CONSULTANTS LLP
2.	AAA-0769	FORTY FOUR G RECORDS LLP
3.	AAA-1742	BINA RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE LLP
4.	AAA-7097	KRT TECHNOLOGIES LLP
5.	AAA-3103	AUSPICE SOLVERE LLP
6.	AAA-0201	INDIACARES ADVISORS LLP
7.	AAA-0127	SAVANNAH GARDEN LLP
8.	AAA-4804	GOGREEN INDIA TRADING COMPANY LLP
9.	AAA-0120	RELISH INNOVATIONS LLP
10.	AAA-4523	SITAC POWER INFRA GEM 100 LLP
11.	AAA-1239	BLUE EVEREST FINANCIAL ADVISORS LLP
12.	AAA-0210	EARTH FOUNDATION GLOBAL LLP
13.	AAA-3429	SOLUTIONBYTES TECHNOLOGIES LLP
14.	AAA-1629	SCAN FINANCIAL CONSULTANTS LLP
15.	AAA-5291	LEISURESPHERE CONSULTING SERVICES LLP

Sl. No.	LLPIN	LLP Name
16.	AAA-3652	BROWN STONE TECHNOLOGIES LLP
17.	AAA-1666	DESTREZA ADVISORS LLP
18.	AAA-3520	PRAVIN COMMUNICATIONS LLP
19.	AAA-0494	SHIVAMJEET TEK LLP
20.	AAB-0449	ODDISH GARMENTS LLP
21.	AAA-3682	LEMON SQUARE LLP
22.	AAA-3431	CVF COMMUNICATIONS LLP
23.	AAA-2386	PHOENIX ADVISORS LLP
24.	AAA-1655	GREENS AND BEANS LLP
25.	AAA-8240	IPBE CAPITAL ADVISORS LLP
26.	AAA-6654	ARISHTAT MINING LLP
27.	AAA-6666	ORANOS MINING LLP
28.	AAA-6656	WILLSTONE MINING LLP
29.	AAA-3435	MVF COMMUNICATIONS
30.	AAA-3504	SETHNA SMS SOLUTIONS
31.	AAA-3501	SUDHIR SMS SOLUTIONS
32.	AAA-5523	BUNDLEBAAZI ONLINE RETAIL SUPPLIERS
33.	AAA-8855	AUGUST WORDS EDUVISORS
34.	AAA-3450	IP DESIGN STUDIO
35.	AAA-3955	TEXT COMMUNICATIONS
36.	AAA-9298	BLOSSOM MINING
37.	AAA-9178	NEONET MINING
38.	AAA-9175	ACCORD MINING
39.	AAA-4574	MOBICONEXION SERVICES
40.	AAB-0814	BONUS EVENTUS PROPERTY CONSULTANTS
41.	AAA-1847	NVYSION IDEAS
42.	AAA-3505	CHANDRMA SMS SOLUTIONS
43.	AAA-1240	BLACKSWAN ADVISORY
44.	AAA-4680	ESSEN VENTURES
45.	AAA-1380	RAM KISHAN BUILDTECH
46.	AAA-1374	VNG INFRASTRUCTURE
47.	AAA-0251	BINARY EDUCATION INDIA
48.	AAA-3430	TVF COMMUNICATIONS
49.	AAA-4258	METAL WING COMMUNICATIONS
50.	AAA-3436	OCEAN WAVE COMMUNICATIONS
51.	AAA-3317	IP CAPITAL ADVISORS
52.	AAA-0189	SMASH EXPLORATION SERVICES

Sl. No.	LLPIN	LLP Name
53.	AAB-6074	EXCEEDO ARCHITECTS AND PLANNERS
54.	AAA-3515	MOBCOM SERVICES LLP
55.	AAA-3516	RAJNANDANI SMS COMMUNICATONS LLP
56.	AAB-4905	TRUBRICKS SERVICES LLP
57.	AAA-8653	BROWSTER CONSULTANCY LLP
58.	AAA-2148	NEOEDGE PLANNERS LLP
59.	AAA-9097	AMILAALG BUILDING MATERIAL SUPPLIER LLP

TIAINLA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jacuzzi Pharma and Drugs Private Limited

Panaji-403001, the 14th January 2015

No. 560 (3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2015/00050/2033—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jacuzzi Pharma and Drugs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Kochi-682021, the 8th January 2015

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved:-

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
1	U63012KL2009PTC024305	MASSTRANS SHIPPING & TRANSPORT INDIA PRIVATE LIMITED
2	U52100KL2007PTC020832	FASHNET INDIA TRADERS PRIVATE LIMITED

A SEHAR PONRAJ
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the companies Act, 1956 and of the following companies

Bangalore, the 13th January 2015

No. RoC/560 (5) FTE—Notice is hereby given pursuant to be Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the under mentioned companies from serial number 1 to 60 have been struck off from he register and the said companies stand dissolved :—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U70102KA1993PTC013975	DANDELI GOLD PLANTATIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2	U72200KA2007PTC044204	EMTUTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
3	U15424KA2011PLC060309	VRIDHI SUGAR & POWER LIMITED
4	U72900KA2011PTC060965	HOOTS COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED
5	U85110KA1996PTC020149	SHREE SHESHADRI LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
6	U80301KA2013PTC070130	QUALED OVERSEAS EDUCATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
7	U72200KA2010PTC053156	TAGGLE INTERNET VENTURES PRIVATE LIMITED
8	U67120KA2004PTC034667	SPICE CAPITAL FUND PRIVATE LIMITED
9	U15490KA2013FTC070594	SCHOUTEN FOOD PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
10	U26913KA2008PTC045837	CERADYNE CERAMICS INDIA PRIVATE LIMITED
11	U73200KA2006PTC038634	PROCINTH RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
12	U74999KA2011PTC060595	YUBIT ECOMMERCE VENTURES PRIVATE LIMITED
13	U80903KA2014PTC074078	WORKINPROGRESS LABS PRIVATE LIMITED
14	U74999KA2011PTC056824	ARTEMUS ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
15	U32109KA1988PTC009484	ELCO NTT (INDIA) PRIVATE LIMITED
16	U55109KA2008SGC046062	APNA SAPNA RESORTS AND PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
17	U85100KA2008PTC046497	LIFEMOJO HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18	U85110KA1989PLC010604	MADY CONSTRUCTIONS LIMITED
19	U74210KA2003PTC031950	PRAGATHI GEO-TECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
20	U72900KA2011PTC060559	EXCELAN INTERNET PRIVATE LIMITED
21	U01403KA2011PTC058915	LARO VALLEY FARMS PRIVATE LIMITED
22	U45201KA2006PTC040761	STHAPATHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
23	U80300KA2009PTC050820	A2A KNOWLEDGE VENTURES PRIVATE LIMITED
24	U74120KA2009PTC051961	AUDACIOUS TECHNOLOGY AND HEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
25	U74210KA2011PTC056861	R M T SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
26	U85195KA2008PTC046387	LIFETEST DIAGNOSTICS AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
27	U72200KA2011PTC056578	KARDISH INFOTECH PRIVATE LIMITED
28	U74992KA2008PTC048661	MAITHRI FOREX & CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
29	U74120KA2008PTC047171	SUPERIOR ACCOUNTING SERVICES PRIVATE LIMITED
30	U62200KA2009PTC051453	ALLIANCE STAR AIRLINES PRIVATE LIMITED
31	U70100KA2011PTC059698	SRI BALAJI REALTECH PRIVATE LIMITED
32	U15400KA2011PTC060410	K V BROTHERS TRADING & FOOD PROCESSING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
33	U45201KA2010PTC055180	DYUTIM INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
34	U70100KA2012PTC063634	BONAVENTURA INFRASTRUCTURES AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
35	U74900KA2011PTC060818	VELVET LEAF VACATION HOMES PRIVATE LIMITED
36	U51410KA2006PTC040985	REFRIGERATION AND OXYGEN ASIA PRIVATE LIMITED
37	U01407KA2013PTC070146	NINE PETALS LANDSCAPES PRIVATE LIMITED
38	U41000KA2011PTC060908	SAI AQUA INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
39	U51101KA2010PTC054581	VINELA EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
40	U74900KA2011PTC058628	BASIC TECHSOL PRIVATE LIMITED
41	U70109KA2011PLC060546	UB REALTY LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
42	U74130KA2009PTC050900	ANGEL NETWORK AND SALES INDIA PRIVATE LIMITED
43	U80101KA2008PTC046813	BENGALURU BUSINESS MANAGEMENT STUDIES PRIVATE LIMITED
44	U72200KA2005PTC036405	AYLUS NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED
45	U72900KA2004FTC035050	SYNFORA INDIA ENGINEERING CENTER PRIVATE LIMITED
46	U92412KA2011PTC061049	SPORTYTUDE SERVICES PRIVATE LIMITED
47	U70102KA2010PTC053579	SUMA TEJASVI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
48	U63040KA2007PTC042832	VACATIONER HOLIDAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED
49	U15422KA2007PTC041685	GOLDEN JAGGERY PRIVATE LIMITED
50	U22222KA2012PTC065532	FALKONHAWK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
51	U85100KA2010PTC055506	MAGNOLIA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
52	U72200KA2014PTC073494	SIGEMC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
53	U13100KA2012PTC064184	SIDDHANT RESOURCES PRIVATE LIMITED
54	U72200KA2006PTC041257	NEXT POINT (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
55	U70102KA2007PTC043759	SHREE NANAK BUILDWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED
56	U24246KA2006PTC038956	PREMURA FRAGRANCE PRIVATE LIMITED
57	U18101KA2008PTC048354	JUALA IMPEX PRIVATE LIMITED
58	U45201KA2010PTC056309	EVERCAAST INFRA PRIVATE LIMITED
59	U63013KA2010PTC054475	INTERCHAIN LOGISTICS PRIVATE LIMITED
60	U74140KA2005PTC037955	BERATUNG SERVICES PRIVATE LIMITED

SATYAJIT ROUL
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in